

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 307]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2024—कार्तिक 2, शक 1946

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2024

क्र. 3237-2345180-2024-दो-सी-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, 02-विजयपुर (श्योपुर) एवं 156-बुधनी (सीहोर) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2024 के लिये निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों को शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28(क) के लिए नामांकित अधिकारी माना जावेगा :—

1. पुलिस उप महानिरीक्षक (ग्रामीण), भोपाल रेंज एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, चंबल रेंज मुरैना, मध्यप्रदेश.
2. पुलिस अधीक्षक, जिला श्योपुर तथा सीहोर व उनके अधीनस्थ निर्वाचन कार्य में लगे पुलिस अधिकारीगण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मीना, अपर सचिव.